

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1972/आषाढ़ 24, 1894

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1972/ASADHA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th July 1972

SUBJECT.—*List of I.D.A. industries.*

No. 104-ITC(PN)/72.—Attention is invited to Appendix 53 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1972—March 1973 which contains the list of I.D.A. industries.

2. The existing list of I.D.A. industries has been revised and appears in the Annexure to this Public Notice.

3. Appendix 53 of the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. I) for April 1972—March 1973 and Appendix 6 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1972-73 may be deemed to have been amended accordingly.

4. Changes in the list of I.D.A. industries as announced in this Public Notice will take effect in respect of Applications for import licences made on or after 1st August, 1972.

ANNEXURE

List of I.D.A. Industries.

1. Commercial vehicles (trucks and buses).
2. Agricultural tractors.
3. Automotive components, the following:—
 - (i) Tyres and tubes (rubber);
 - (ii) Auto-electricals and batteries;
 - (iii) Radiators;
 - (iv) Fuel systems;
 - (v) Pistons, shafts, bearings, valves and seals;
 - (vi) Clutch and brake systems;
 - (vii) Wheels and shock absorbers; and
 - (viii) Other parts.
4. Machine tools.
5. Cutting tools, small tools and abrasives.
6. Electric motors (above 1 H.P.)
7. Fertilisers;
 - (i) Nitrogenous.
 - (ii) Phosphatic.
8. Pesticides (Technical).
9. Aluminium.
10. Ball and Roller bearings.
11. Power tillers.
12. Power transformers upto 33 K.V.
13. Switch gear and control gear.
14. Electrical steel stampings and laminations.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1972

विषय :—आई० डी० ए० उद्योगों की सूची

सं० 104-आई० डी० सी० (पी० एन०)/72 :—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा० 1) के अनुबन्ध 53 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें आई० डी० ए० उद्योगों की सूची दी गई है ।

2. अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण (नीति रेड बुक वा० 1) के अनुबन्ध 53 को तथा आयात व्यापार नियंत्रण हैड बुक, क्रियाविधि, 1973 के अनुबन्ध 6 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

3. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार घोषित आई० डी० ए० उद्योगों की सूची में परिवर्तन 1 अगस्त, 1972 को या उसके बाद आयात लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

अनुबन्ध

आई० डी० ए० उद्योगों की सूची

1. व्यापारिक वाहन (ट्रक्स और बसें) ।

2. कृषि ट्रैक्टर ।

3. निम्नलिखित आटोमोटिव संघटक ।

(i) टायर और ट्यूब (रबड़) ।

(ii) आटो इलेक्ट्रीकलज तथा बैटरियां ।

(iii) रेडिएटर्स ।

(iv) फ्यूल सिस्टम ।

(v) पिस्टन, शाफ्ट्स, बेयरिंग, वाल्व्स तथा सील्स ।

(vi) क्लच तथा ब्रेक सिस्टम ।

(vii) ह्वील्स तथा शाक ऐब्जारेक्टर्स ।

(viii) अन्य पुर्जे ।

4. मशीन औजार ।
5. काटने वाले औजार, छोटे औजार तथा अपघर्षक ।
6. इलेक्ट्रिक मोटर्स (1 अश्वशक्ति से अधिक वाले) ।
7. उर्वरक ।
 - (i) नाइट्रोजन्स ।
 - (ii) फास्फेटिक ।
8. कीट नाशक (तकनीकी) ।
9. एल्यूमीनियम ।
10. बाल तथा रोलर बेयरिंग
11. पावर टिलर्स ।
12. 33 के० बी० तक के पावर ट्रांसफार्मर्स ।
13. स्वीच गीयर तथा नियंत्रण गीयर ।
14. इलेक्ट्रिकल इस्पात स्टेम्पिंग तथा लेमिनेशन्स ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।